

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2012—भाद्र 30, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं